

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021 — कार्तिक 21, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-8/2019/1/एक. — भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 17-01-2012 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है.

2. अतएव उक्त के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाये :-

“परन्तु उक्त बोर्ड सरगुजा तथा बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान एवं उद्भूत होने वाली रिक्तियों का भी चयन उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से कर सकेगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.